



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 आश्विन 1941 (श०)

(सं० पटना 1152) पटना, शुक्रवार, 11 अक्टूबर 2019

सं० 16/एच.1-08/2016-1351(आ०चि०)

स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

3 अक्टूबर 2019

विषय:— बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग एवं बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग की भाँति बिहार आयुष (आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होमियोपैथिक) सम्वर्ग के चिकित्सकों/चिकित्सक शिक्षकों के लिए डायनेमिक ए०सी०पी० का वैचारिक लाभ 01.01.2006 से तथा वास्तविक लाभ फरवरी, 2014 से किन्तु आयुष चिकित्सकों/शिक्षकों को दिनांक 21.12.2010 से पूर्व में स्वीकृत डी०ए०सी०पी० का लाभ बरकरार रखने एवं वसूलनीय नहीं होने की शर्त पर लागू करने के संबंध में।

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन आयुष निदेशालय के अन्तर्गत आयुष प्रक्षेत्र की पाँच विधाओं में से तीन विधाओं यथा आयुर्वेद, यूनानी एवं होमियोपैथ चिकित्सा पद्धति के शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल एवं राजकीय औषधालय सम्पूर्ण बिहार राज्य में संचालित हैं तथा इनमें पदाधिकारी एवं कर्मचारी पदस्थापित हैं।

2. राज्य सरकार द्वारा आयुष प्रक्षेत्र के गैर शैक्षणिक एवं शैक्षणिक संवर्ग को क्रमशः अधिसूचना संख्या-1026(दे०चि०), दिनांक 21.12.2010 एवं अधिसूचना संख्या-1146 (आ०चि०) दिनांक 09.10.2017 द्वारा डी०ए०सी०पी० का लाभ दिनांक 21.12.2010 के प्रभाव से लागू किया गया है।

3. बिहार जिला आयुष चिकित्सा/राज्य आयुष चिकित्सा सेवा (नियमित/अनुबंध के आधार पर नियुक्ति एवं सेवा शर्त) नियमावली 2010 की कंडिका-15 में यह प्रावधान किया गया है कि “राज्य चिकित्सा संवर्ग की सेवा शर्त निर्धारित करने के उद्देश्य से बनी नियमावली में जो भी संशोधन होगा वह आयुष प्रक्षेत्र में भी स्वतः लागू माना जाएगा।”

4. वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या-3768, दिनांक 29.04.2014 द्वारा बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा के चिकित्सक शिक्षकों को दिनांक 13.10.2008 से तथा बिहार स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सकों को दिनांक 25.11.2008 से स्वीकृत/भुगतये डी०ए०सी०पी० का लाभ बरकरार एवं वसूलनीय नहीं होने की शर्त पर डायनेमिक ए०सी०पी० के प्रभावी तिथियों में संशोधन कर दिनांक 01.01.2006 से वैचारिक लाभ एवं वास्तविक लाभ फरवरी, 2014 से अनुमान्य किया गया है।

5. अतः उपरोक्त के आलोक में बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग एवं बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग की भाँति बिहार आयुष (आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होमियोपैथिक) सम्वर्ग के चिकित्सकों/चिकित्सक शिक्षकों के लिए डायनेमिक ए०सी०पी० का वैचारिक लाभ 01.01.2006 से तथा वास्तविक लाभ फरवरी, 2014 से किन्तु आयुष चिकित्सकों/शिक्षकों को दिनांक 21.12.2010 से पूर्व में स्वीकृत डी०ए०सी०पी० का लाभ बरकरार रखने एवं वसूलनीय नहीं होने की शर्त पर लागू किया जाता है।

6. आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन राजकीय गजट के असाधारण अंक में किया जाय तथा इसकी 25 प्रतियाँ आयुष निदेशालय, स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से
अरविन्दर सिंह,
सरकार के विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1152-571+25 -डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>